

# टाटा कंपनी के नाम पर नकली नमक बेचने वाले सात दुकानदार गिरफ्तार



रुड़की: टाटा कंपनी के नाम पर नकली नमक बेचने वाले सात दुकानदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी अधिकारियों की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जिन सात दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी दुकानों से पुलिस ने 133 नमक के पैकेट बरामद किए हैं, ये सभी पैकेट टाटा कंपनी के हैं। जबकि, उनके भीतर रखा गया नमक कंपनी का नहीं है। भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि बाजार में टाटा कंपनी के नाम पर नकली नमक दुकानों पर बेचे जाने की जानकारी अनुसंधान इंवेस्टीगेटर लक्ष्मीनगर दिल्ली के फील्ड एग्जिक्यूटिव रमेश चंद ने शनिवार को पुलिस को दी। इस पर पुलिस टीम ने कंपनी अधिकारियों के साथ बाजार में परचून की दुकानों पर छापे मारे। छापे के दौरान सात दुकानों से टाटा नमक के 133 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस टीम सातों दुकानदारों को पकड़कर थाने ले आई। दुकानों से बरामद नमक को भी जब्त कर लिया गया। कंपनी के अधिकारी रमेशचंद की ओर से सातों दुकानदारों के खिलाफ कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के नाम पर नकली नमक बेचने के आरोप में मुरसलीन निवासी सिमालका जुनारदार सहारनपुर हाल दुकान मालिक स्काई प्रोविजन स्टोर रायपुर, मोहम्मद साकिब निवासी खेलपुर भगवानपुर हाल दुकान मालिक प्रोविजन स्टोर रायपुर रोड भगवानपुर, जुरफान निवासी सिरचंदी, तालीम दुकान मालिक प्रोविजन स्टोर चुड़ियाला रोड भगवानपुर, सादिक मक्खनपुर दुकान मालिक गुलजार प्रोविजन स्टोर जिला पंचायत मार्केट भगवानपुर, अमजद नसीम निवासी शाहपुर दुकान नसीम ट्रेडिंग कंपनी सिकरौड़ा रोड एवं सिलमान निवासी शाहपुर दुकान मालिक नसीम ट्रेडर्स भगवानपुर शामिल हैं। सभी आरोपितों का चालान कर दिया गया है। आरोपितों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनिल सिंह बिष्ट, कांस्टेबल रविदत्त एवं मुकेश आदि शामिल रहे।

Source: <https://www.jagran.com/uttarakhand/haridwar-seven-shopkeepers-arrested-for-selling-forgery-products-22858744.html>